

# निवेश धोखाधड़ी जांचसूची



एक समझदार निवेशक होने पर आपको निवेश धोखाधड़ी के चेतावनी संकेतों की पहचान करने में मदद मिलेगी, और आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे। निवेश करने से पहले आप प्रश्न पूछें।

	हां	नहीं
<p><b>1. क्या आपको एक गारन्टीड रिटर्न का वादा किया गया था?</b> प्रतिफल की गारंटी वाले निवेशों से सावधान रहें। जब आप कोई निवेश खरीदते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आप उससे पैसे कमाएंगे, और सामान्य तौर पर प्रतिफल की सम्भावना बढ़ने के साथ ही पैसा गंवाने का आपका जोखिम भी बढ़ जाता है।</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>2. क्या आपसे कहा गया था कि निवेश में बहुत मामूली या फिर कोई भी जोखिम नहीं है?</b> बिना जोखिम वाला कोई भी निवेश नहीं होता है। जोखिम और निवेश आपस में जुड़े होते हैं। जिन निवेशों में कम जोखिम जोता है, उसमें प्रतिफल भी कम होता है। वैसे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप अधिक जोखिम स्वीकार करने पर वास्तव में अधिक प्रतिफल पा ही जाएंगे।</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>3. क्या आपने जल्दी से निवेश करने का दबाव महसूस किया?</b> धोखाधड़ी करने वाले लोग आपसे पैसा लेने के लिए प्रायः बहुत अधिक दबाव डालने वाली सेल्स टैक्टिक्स का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा शिकार ढूँढते हैं। यदि आपसे तुरन्त ही कोई निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, या आपको एक सीमित समय ऑफर के बारे में बताया जाता है, तो यह सम्भवतः एक अच्छा विकल्प नहीं है।</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>4. क्या आपको एक इनसाइडर सूचना या “हॉट टिप” का लालच दिया गया था?</b> जो लोग “हॉट टिप” या “इनसाइडर सूचना” का लालच देते हैं, उन्हें आपके हित में रुचि नहीं होती है। सोचिए कि वे आपको टिप क्यों दे रहे हैं, और उसके बारे में बताने से उन्हें कैसे लाभ होता है। यदि उनकी टिप गलत हुई, और आप उसके भरोसे अपना पैसा लगाते हैं, तो नुकसान आपको ही होगा। और यदि वह किसी पब्लिक कम्पनी के बारे में वास्तव में इनसाइडर सूचना हुई, तो इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनों के अन्तर्गत उसके आधार पर खरीद-बिक्री करना गैर कानूनी होगा।</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p><b>5. क्या आपने विक्रेता की पंजीकरण सूचना और अनुशासन रिकॉर्ड की जांच की है?</b> इस बात की हमेशा जांच करें कि आप जिस व्यक्ति या कम्पनी के साथ डील कर रहे हैं, वह आपके प्रांत या क्षेत्र में प्रतिभूति विनियामक के यहाँ पंजीकृत हो। पंजीकरण होने पर अयोग्य अथवा धोखेबाज निवेश प्रोफेशनल से भी सुरक्षा मिलती है। <a href="http://CheckBeforeYouInvest.ca">CheckBeforeYouInvest.ca</a> पर जाएँ या ऑटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (OSC) के सम्पर्क केन्द्र को <b>1-877-785-1555</b> पर कॉल करें।</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

हां

नहीं

## 6. क्या आप किसी विश्वसनीय स्रोत से निवेश को सत्यापित कर सकते हैं?

यदि आप एक अवांछित निवेश अवसर प्राप्त करते हैं, तो अपने पंजीकृत वित्तीय प्रतिनिधि, या अधिवक्ता की सलाह मांगें। पंजीकरण की जाँच करने के लिए, [CheckBeforeYouInvest.ca](http://CheckBeforeYouInvest.ca) पर जाएँ या OSC के सम्पर्क केन्द्र को **1-877-785-1555** पर कॉल करें।

## 7. क्या आप समझते हैं कि निवेश किस तरह से कार्य करता है?

जब तक आप इस बात को ना समझें कि निवेश किस तरह से कार्य करता है, कभी भी निवेश ना करें। निवेश को खरीदने, होल्ड करने या तथा बेचने की क्या फीस है? इस पर कितना कर लगेगा? सुनिश्चित करें कि निवेश आपके वित्तीय लक्ष्य तथा अन्य निवेशों से मेल खाता हो। यदि आपके पास कोई वित्तीय योजना है, तो आप अपनी योजना तथा वित्तीय लक्ष्यों के सम्बन्ध में किसी नए अवसरों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

निवेश करने से पहले, विजिट करें [CheckBeforeYouInvest.ca](http://CheckBeforeYouInvest.ca)

धोखाधड़ी से सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, विजिट करें [GetSmarterAboutMoney.ca](http://GetSmarterAboutMoney.ca)

### Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22<sup>nd</sup> Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: [inquiries@osc.gov.on.ca](mailto:inquiries@osc.gov.on.ca)

 [GetSmarterAboutMoney](https://www.facebook.com/GetSmarterAboutMoney)

 [@smarter\\_money](https://twitter.com/smarter_money)

[GetSmarterAboutMoney.ca](http://GetSmarterAboutMoney.ca)



ONTARIO  
SECURITIES  
COMMISSION

